



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 1977, आश्विन 26, 1899

No. 449] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 1977/ASVINA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October 1977

S.O. 726(E).—Whereas the Government of Assam have intimated a change in the name of a district mentioned in Schedule IV of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976,

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to correct the name of the district in Schedule IV of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 to bring the Order up-to-date,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby makes corrections in the said Order as follows—

In Part B of Schedule IV of the Order—

- (i) After the entry 16, Haflong (ST), for the sub-heading 'MIKAR HILLS DISTRICT' the sub-heading 'KARBI ANGLONG DISTRICT' shall be substituted.
- (ii) In the Note, at the end of the Schedule, for the words and figures, '1st day of August, 1975' the words and figures '1st day of August, 1977' shall be substituted.

[No. 282/1/AS/77]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1977

का० आ० 726(अ).—आसाम सरकार ने ससदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिमीन आदेश, 1976 की अनुसूची-4 में उल्लिखित एक जिले के नाम में परिवर्तन की सूचना दी है ;

और, निर्वाचन आयोग संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिमीन आदेश, 1976 को अद्यतन बनाए रखने के लिए उस आदेश की अनुसूची-4 में उस जिले के नाम को शुद्ध करना आवश्यक और समीचीन समझता है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त आदेश में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है :—

उक्त आदेश की अनुसूची-4 के भाग ख में—

- (i) 16—हापलोंग (अ० ज० जा०) प्रविष्टि के बाद 'मिकिर पहाड़ी जिला' उप शीर्षक के स्थान पर, "कर्बी अगलोग जिला" उप शीर्षक रखा जाएगा ,
- (ii) उक्त अनुसूची के अन्त में, टिप्पणी में "1975 के अगस्त मास के प्रथम दिन" संख्या और शब्दों के स्थान पर, "1977 के अगस्त मास के प्रथम दिन" संख्या और शब्द रखे जाएंगे ।
- (iii) (क) उक्त अनुसूची के अन्त में, पृष्ठ 71 पर परिशिष्ट (6) में, "121 कुकुर कंडी" के स्थान पर, "121—बेहर झर" शब्द रखे जाएंगे ; और
(ख) उक्त अनुसूची के अन्त में, पृष्ठ 73 पर, परिशिष्ट (7) में "67. आलम गंज भाग छह" के स्थान पर, "67—आलमगंज भाग सात" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 282/1/आसाम/77]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार, मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977